


## ΔΔα Δ΄ ΔαΔ΄ Βα ΚΓ

## THE CHOICES WE MAKE DURING PREGNANCY...



## ...WILL AFFECT OUR CHILDREN FOR LIFE.

ALCOHOL CAN DAMAGE THE BRAIN AND BODY OF AN UNBORN CHILD. FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDER (FASD) DESCRIBES THE WIDE RANGE OF LIFELONG MENTAL, BEHAVIOURAL, AND PHYSICAL EFFECTS ON CHILDREN, IF THEIR MOTHERS DRANK ALCOHOL WHILE PREGNANT. DRINKING NO ALCOHOL DURING PREGNANCY IS THE BEST WAY TO PREVENT FASD. STOPPING ALCOHOL USE ANYTIME DURING PREGNANCY WILL REDUCE THE RISKS OF FASD. NO AMOUNT OF ALCOHOL IS SAFE DURING ANY STAGE OF PREGNANCY. EVERYONE HAS A ROLE IN PREVENTING FASD AND SUPPORTING THOSE WHO ARE AFFECTED BY FASD.

ΔΓϤ϶<sup>5</sup> ለናΔቲቈን<sup>5</sup> «ትΔልና ቴናኒኒኒቴ» በΓ<sup>5</sup>ኒቴ<sup>5</sup>. Δ**Γປ**϶<sup>5</sup>L<sup>6</sup> «ት<mark>Ζ</mark>4<sup>†</sup>ປ<sup>\*</sup>϶በ<sup>6</sup> **ປ**<sup>6</sup>D<sup>6</sup>CP/Lቲ<sup>6</sup> «<sub>2</sub>2</sub>Δ<sup>6</sup>γ<sup>7</sup>₹CP/L<sup>5</sup>ς <sup>6</sup>P)<sup>6</sup><sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup><sup>†</sup> Δ<sup>6</sup>γ<sup>†</sup> Δ

PAUKTUUTIT REPRESENTS ALL INUIT WOMEN IN CANADA.

WE ARE COMMITTED TO POLITICAL, ECONOMIC, HEALTH AND

SOCIAL IMPROVEMENTS FOR OURSELVES, OUR FAMILIES

AND OUR COMMUNITIES.

www.pauktuutit.ca

〈▷ʰਐᠬᠳ ዮƯਐ᠔᠘᠘᠘
‹◊ዮਐᠬᠳ ዮƯਐ᠔᠘᠘
‹‹‹‹)

⟨९८८, ४४००००० ।

⟨९८८, ४५००००० ।

⟨९८८, ४५०००० ।

⟨९८८, ४५०००० ।

⟨९८८, ४५००० ।

⟨९८००० ।

⟨९८०० ।

⟨९८०० ।

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८०० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )

⟨९८० )